



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 माघ 1934 (श0)
(सं0 पटना 120) पटना, सोमवार, 11 फरवरी 2013

पत्र सं0 3ए0-2-वे0पु0-16/2009-1336-वि0

वित्त विभाग

प्रेषक,

प्रभात शंकर,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 11 फरवरी 2013

विषय:- वित्त विभागीय संकल्प सं0 630, दिनांक 21/01/2010 के शिड्यूल-II के उपयोग के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभागीय संकल्प सं0 630, दिनांक 21/01/2010 के शिड्यूल-II में नवनियुक्त कर्मियों के लिए प्रवेश वेतनमान विहित किया गया है । इसी संकल्प की कंडिका 8 में यह प्रावधान किया गया है कि दिनांक 01/01/2006 को या उसके बाद नवनियुक्त (Fresh Recruit) कर्मियों के लिए प्रवेश वेतनमान शिड्यूल-II के अनुसार अनुमान्य होगा । साथ ही यह भी प्रावधान अंकित है कि दिनांक 01/01/2006 से दिनांक 31/12/2008 के बीच भी नवनियुक्त कर्मियों के लिए शिड्यूल-II में अंकित प्रवेश वेतनमान में वेतन नियतन किया जाएगा ।

2. इस क्रम में वित्त विभागीय पत्रांक 15892, दिनांक 12/11/2012 के द्वारा पत्रांक 15777, दिनांक 07/11/2012 को स्पष्ट किया गया है कि शिड्यूल-II, दिनांक 01/01/2006 या उसके बाद 31/12/2008 तक नवनियुक्त कर्मियों पर ही यह लागू है, पूर्व से नियुक्त सरकारी कर्मियों के लिए नहीं । वित्त विभागीय पत्रांक 11406, दिनांक 15/12/2011 द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया

जा चुका है कि दिनांक 01/01/2006 के बाद सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्त, प्रोन्नति एवं वित्तीय उन्नयन प्राप्त कर्मी Fresh Recruit नहीं हैं; अतः उन्हें शिड्यूल-II के आधार पर वेतन निर्धारण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा।

3. प्रवेश वेतनमान की अनुमान्यता की तिथि के संबंध में विभागों/कार्यालयों द्वारा स्पष्टीकरण हेतु प्रस्ताव/पत्र प्राप्त हो रहे हैं कि दिनांक 01/01/2009 को या इसके बाद नव नियुक्त कर्मी का वेतनमान नियतन शिड्यूल-II के आलोक में अनुमान्य होगा या नहीं।

4. इस संबंध में स्पष्ट करना है कि शिड्यूल-II में विहित वेतनमान में प्रवेश वेतन नियतन, दिनांक 01/01/2006 को या उसके बाद नवनियुक्त (Fresh Recruit) कर्मियों के लिए अनुमान्य होगा। यह प्रवेश वेतन दिनांक 01/01/2009 को या उसके बाद की तिथियों में नवनियुक्त कर्मियों (Fresh Recruit) के लिए भी अनुमान्य होगा।

5. शिड्यूल-II की अनुमान्यता के संबंध में पूर्व के निर्गत पत्रों/परिपत्रों को इस हद तक संशोधित किया जाता है।

विश्वासभाजन,
प्रभात शंकर,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 120-571+100-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>